



Peeyushi jain

03 Mar 1997

06:30 AM

Hindaun

Model: Web-MyKundli

Order No: 120881901

सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

लिंग _____: स्त्रीलिंग
जन्म तिथि _____: 2-03/03/1997
दिन _____: रवि-सोमवार
जन्म समय _____: 06:30:00 घंटे
इष्ट _____: 59:22:01 घटी
स्थान _____: Hindaun
राज्य _____: Rajasthan
देश _____: India

अक्षांश _____: 26:44:00 उत्तर
रेखांश _____: 77:02:00 पूर्व
मध्य रेखांश _____: 82:30:00 पूर्व
स्थानिक संस्कार _____: -00:21:52 घंटे
ग्रीष्म संस्कार _____: 00:00:00 घंटे
स्थानिक समय _____: 06:08:08 घंटे
वेलान्तर _____: -00:12:11 घंटे
साम्पातिक काल _____: 16:51:32 घंटे
सूर्योदय _____: 06:45:11 घंटे
सूर्यास्त _____: 18:23:15 घंटे
दिनमान _____: 11:38:04 घंटे
सूर्य स्थिति(अयन) _____: उत्तरायण
सूर्य स्थिति(गोल) _____: दक्षिण
ऋतु _____: वसन्त
सूर्य के अंश _____: 18:40:25 कुम्भ
लग्न के अंश _____: 12:40:14 कुम्भ

अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति _____: कुम्भ - शनि
राशि-स्वामी _____: वृश्चिक - मंगल
नक्षत्र-चरण _____: ज्येष्ठा - 3
नक्षत्र स्वामी _____: बुध
योग _____: वज्र
करण _____: तैतिल
गण _____: राक्षस
योनि _____: मृग
नाड़ी _____: आद्य
वर्ण _____: विप्र
वश्य _____: कीटक
वर्ग _____: मृग
युँजा _____: अन्त्य
हंसक _____: जल
जन्म नामाक्षर _____: यी-यीशा
पाया(राशि-नक्षत्र) _____: ताम्र - ताम्र
सूर्य राशि(पाश्चात्य) _____: मीन

पंचांग

दादा का नाम _____ :
पिता का नाम _____ :
माता का नाम _____ :
जाति _____ :
गोत्र _____ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1918	फाल्गुन	12
पंजाबी	संवत : 2053	फाल्गुन	20
बंगाली	सन् : 1403	फाल्गुन	19
तमिल	संवत : 2053	मासी	20
केरल	कोल्लम : 1172	कुंभम	19
नेपाली	संवत : 2053	फाल्गुन	20
चैत्रादि	संवत : 2053	फाल्गुन	कृष्ण 9
कार्तिकादि	संवत : 2053	माघ	कृष्ण 9

पंचांग


सूर्योदय कालीन तिथि _____ : 8
तिथि समाप्ति काल _____ : 26:42:55
जन्म तिथि _____ : 9
सूर्योदय कालीन नक्षत्र _____ : अनुराधा
नक्षत्र समाप्ति काल _____ : 12:39:55 घंटे
जन्म योग _____ : ज्येष्ठा
सूर्योदय कालीन योग _____ : हर्षण
योग समाप्ति काल _____ : 16:08:15 घंटे
जन्म योग _____ : वज्र
सूर्योदय कालीन करण _____ : बालव
करण समाप्ति काल _____ : 15:07:32 घंटे
जन्म करण _____ : तैतिल
भयात _____ : 44:35:12
भभोग _____ : 59:17:56
भोग्य दशा काल _____ : बुध 4 वर्ष 3 मा 5 दि

घात चक्र


मास _____ : आश्विन
तिथि _____ : 1-6-11
दिन _____ : शुक्रवार
नक्षत्र _____ : रेवती
योग _____ : व्यतिपात
करण _____ : गर
प्रहर _____ : 1
वर्ग _____ : सिंह
लग्न _____ : वृश्चिक
सूर्य _____ : मकर
चन्द्र _____ : धनु
मंगल _____ : कुम्भ
बुध _____ : वृश्चिक
गुरु _____ : मीन
शुक्र _____ : मेष
शनि _____ : कर्क
राहु _____ : वृष

जन्म कुण्डली

लग्न कुण्डली



चन्द्र कुण्डली



लग्न कुण्डली और दशा

लग्न कुंडली

के श			
ब्र सू शु			
गु			
	चं		रा मं

लग्न कुंडली

		के श	
		ल	सू शु
		गु	
मं रा			चं

विंशोत्तरी
बुध 4वर्ष 3मा 5दि
बुध

03/03/1997

09/06/2104

बुध	08/06/2001
केतु	08/06/2008
शुक्र	08/06/2028
सूर्य	08/06/2034
चन्द्र	08/06/2044
मंगल	08/06/2051
राहु	08/06/2069
गुरु	08/06/2085
शनि	09/06/2104

योगिनी

भद्रिका 1वर्ष 3मा 1दि
भामरी

04/06/2025

04/06/2029

भामरी	13/11/2025
भद्रिका	04/06/2026
उल्का	03/02/2027
सिद्धा	14/11/2027
संकटा	03/10/2028
मंगला	13/11/2028
पिंगला	02/02/2029
धान्या	04/06/2029


ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व	अ	राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद	नं.	रा	न	अं.	स्थिति
लग्न			कुंभ	12:40:14	481:55:51	शतभिषा	2	24	शनि	राहु	बुध	---
सूर्य			कुंभ	18:40:25	01:00:10	शतभिषा	4	24	शनि	राहु	चंद्र	शत्रु राशि
चंद्र			वृश्चि	26:39:14	13:35:37	ज्येष्ठा	3	18	मंगल	बुध	गुरु	नीच राशि
मंगल	व		कन्या	08:07:29	00:18:34	उ०फाल्गुनी	4	12	बुध	सूर्य	शुक्र	शत्रु राशि
बुध	अ		कुंभ	11:15:16	01:47:13	शतभिषा	2	24	शनि	राहु	शनि	सम राशि
गुरु			मक	15:25:42	00:12:58	श्रवण	2	22	शनि	चंद्र	गुरु	नीच राशि
शुक्र	अ		कुंभ	11:01:17	01:14:55	शतभिषा	2	24	शनि	राहु	शनि	मित्र राशि
शनि			मीन	13:00:04	00:07:05	उ०भाद्रपद	3	26	गुरु	शनि	राहु	सम राशि
राहु	व		कन्या	05:00:56	00:00:19	उ०फाल्गुनी	3	12	बुध	सूर्य	शनि	मूलत्रिकोण
केतु	व		मीन	05:00:56	00:00:19	उ०भाद्रपद	1	26	गुरु	शनि	शनि	मूलत्रिकोण
हर्ष			मक	12:54:05	00:03:01	श्रवण	1	22	शनि	चंद्र	राहु	---
नेप			मक	05:11:46	00:01:47	उत्तराषाढा	3	21	शनि	सूर्य	बुध	---
प्लूटो			वृश्चि	11:46:33	00:00:12	अनुराधा	3	17	मंगल	शनि	चंद्र	---
दशम भाव			वृश्चि	20:24:23	--	ज्येष्ठा	--	18	मंगल	बुध	शुक्र	--


व - वकी स - स्थिर
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 23:49:04


लग्न-चलित



चन्द्र कुंडली



नवमांश कुंडली



चलित तथा निरयण भाव चलित

चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	मकर 28:57:36	कुम्भ 12:40:14
2	कुम्भ 28:57:36	मीन 15:14:57
3	मेष 01:32:19	मेष 17:49:40
4	वृष 04:07:02	वृष 20:24:23
5	मिथुन 04:07:02	मिथुन 17:49:40
6	कर्क 01:32:19	कर्क 15:14:57
7	कर्क 28:57:36	सिंह 12:40:14
8	सिंह 28:57:36	कन्या 15:14:57
9	तुला 01:32:19	तुला 17:49:40
10	वृश्चिक 04:07:02	वृश्चिक 20:24:23
11	धनु 04:07:02	धनु 17:49:40
12	मकर 01:32:19	मकर 15:14:57


निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	कुम्भ	12:40:14
2	मीन	22:31:10
3	मेष	24:32:07
4	वृष	20:24:23
5	मिथुन	14:12:02
6	कर्क	09:58:30
7	सिंह	12:40:14
8	कन्या	22:31:10
9	तुला	24:32:07
10	वृश्चिक	20:24:23
11	धनु	14:12:02
12	मकर	09:58:30


तारा चक्र

जन्म	सम्पत	विपत	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
ज्येष्ठा	मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण	धनिष्ठा	शतभिषा	पू०भाद्रपद	उ०भाद्रपद
रेवती	अश्विनी	भरणी	कृत्तिका	रोहिणी	मृगशिरा	आर्द्रा	पुनर्वसु	पुष्य
आश्लेषा	मघा	पू०फाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त	चित्रा	स्वाति	विशाखा	अनुराधा

चलित कुंडली



भाव कुंडली



विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : बुध 4 वर्ष 3 मास 5 दिन

बुध 17 वर्ष	केतु 7 वर्ष	शुक्र 20 वर्ष	सूर्य 6 वर्ष	चंद्र 10 वर्ष
03/03/1997	08/06/2001	08/06/2008	08/06/2028	08/06/2034
08/06/2001	08/06/2008	08/06/2028	08/06/2034	08/06/2044
00/00/0000	केतु 04/11/2001	शुक्र 08/10/2011	सूर्य 25/09/2028	चंद्र 09/04/2035
00/00/0000	शुक्र 04/01/2003	सूर्य 07/10/2012	चंद्र 27/03/2029	मंगल 08/11/2035
00/00/0000	सूर्य 12/05/2003	चंद्र 08/06/2014	मंगल 02/08/2029	राहु 09/05/2037
00/00/0000	चंद्र 11/12/2003	मंगल 08/08/2015	राहु 26/06/2030	गुरु 08/09/2038
00/00/0000	मंगल 08/05/2004	राहु 08/08/2018	गुरु 15/04/2031	शनि 08/04/2040
00/00/0000	राहु 27/05/2005	गुरु 08/04/2021	शनि 27/03/2032	बुध 07/09/2041
03/03/1997	गुरु 03/05/2006	शनि 08/06/2024	बुध 31/01/2033	केतु 08/04/2042
गुरु 29/09/1998	शनि 12/06/2007	बुध 09/04/2027	केतु 08/06/2033	शुक्र 08/12/2043
शनि 08/06/2001	बुध 08/06/2008	केतु 08/06/2028	शुक्र 08/06/2034	सूर्य 08/06/2044

मंगल 7 वर्ष	राहु 18 वर्ष	गुरु 16 वर्ष	शनि 19 वर्ष	बुध 17 वर्ष
08/06/2044	08/06/2051	08/06/2069	08/06/2085	09/06/2104
08/06/2051	08/06/2069	08/06/2085	09/06/2104	00/00/0000
मंगल 04/11/2044	राहु 19/02/2054	गुरु 27/07/2071	शनि 11/06/2088	बुध 05/11/2106
राहु 22/11/2045	गुरु 14/07/2056	शनि 06/02/2074	बुध 19/02/2091	केतु 03/11/2107
गुरु 29/10/2046	शनि 21/05/2059	बुध 14/05/2076	केतु 30/03/2092	शुक्र 02/09/2110
शनि 08/12/2047	बुध 08/12/2061	केतु 20/04/2077	शुक्र 30/05/2095	सूर्य 10/07/2111
बुध 04/12/2048	केतु 26/12/2062	शुक्र 20/12/2079	सूर्य 11/05/2096	चंद्र 08/12/2112
केतु 02/05/2049	शुक्र 26/12/2065	सूर्य 07/10/2080	चंद्र 11/12/2097	मंगल 06/12/2113
शुक्र 03/07/2050	सूर्य 20/11/2066	चंद्र 06/02/2082	मंगल 19/01/2099	राहु 24/06/2116
सूर्य 07/11/2050	चंद्र 20/05/2068	मंगल 13/01/2083	राहु 26/11/2101	गुरु 04/03/2117
चंद्र 08/06/2051	मंगल 08/06/2069	राहु 08/06/2085	गुरु 09/06/2104	00/00/0000

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशो के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल बुध 4 वर्ष 2 मा 18 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

शुक्र - बुध 08/06/2024 09/04/2027	शुक्र - केतु 09/04/2027 08/06/2028	सूर्य - सूर्य 08/06/2028 25/09/2028	सूर्य - चंद्र 25/09/2028 27/03/2029	सूर्य - मंगल 27/03/2029 02/08/2029
बुध 01/11/2024 केतु 01/01/2025 शुक्र 22/06/2025 सूर्य 13/08/2025 चंद्र 07/11/2025 मंगल 07/01/2026 राहु 11/06/2026 गुरु 27/10/2026 शनि 09/04/2027	केतु 03/05/2027 शुक्र 13/07/2027 सूर्य 04/08/2027 चंद्र 08/09/2027 मंगल 03/10/2027 राहु 06/12/2027 गुरु 01/02/2028 शनि 08/04/2028 बुध 08/06/2028	सूर्य 13/06/2028 चंद्र 22/06/2028 मंगल 29/06/2028 राहु 15/07/2028 गुरु 30/07/2028 शनि 16/08/2028 बुध 01/09/2028 केतु 07/09/2028 शुक्र 25/09/2028	चंद्र 11/10/2028 मंगल 21/10/2028 राहु 18/11/2028 गुरु 12/12/2028 शनि 10/01/2029 बुध 05/02/2029 केतु 15/02/2029 शुक्र 18/03/2029 सूर्य 27/03/2029	मंगल 03/04/2029 राहु 23/04/2029 गुरु 10/05/2029 शनि 30/05/2029 बुध 17/06/2029 केतु 24/06/2029 शुक्र 16/07/2029 सूर्य 22/07/2029 चंद्र 02/08/2029
सूर्य - राहु 02/08/2029 26/06/2030	सूर्य - गुरु 26/06/2030 15/04/2031	सूर्य - शनि 15/04/2031 27/03/2032	सूर्य - बुध 27/03/2032 31/01/2033	सूर्य - केतु 31/01/2033 08/06/2033
राहु 20/09/2029 गुरु 03/11/2029 शनि 25/12/2029 बुध 10/02/2030 केतु 01/03/2030 शुक्र 24/04/2030 सूर्य 11/05/2030 चंद्र 07/06/2030 मंगल 26/06/2030	गुरु 04/08/2030 शनि 20/09/2030 बुध 31/10/2030 केतु 17/11/2030 शुक्र 05/01/2031 सूर्य 19/01/2031 चंद्र 13/02/2031 मंगल 02/03/2031 राहु 15/04/2031	शनि 09/06/2031 बुध 28/07/2031 केतु 17/08/2031 शुक्र 14/10/2031 सूर्य 31/10/2031 चंद्र 29/11/2031 मंगल 19/12/2031 राहु 09/02/2032 गुरु 27/03/2032	बुध 10/05/2032 केतु 28/05/2032 शुक्र 19/07/2032 सूर्य 03/08/2032 चंद्र 29/08/2032 मंगल 16/09/2032 राहु 02/11/2032 गुरु 13/12/2032 शनि 31/01/2033	केतु 08/02/2033 शुक्र 01/03/2033 सूर्य 07/03/2033 चंद्र 18/03/2033 मंगल 25/03/2033 राहु 14/04/2033 गुरु 01/05/2033 शनि 21/05/2033 बुध 08/06/2033
सूर्य - शुक्र 08/06/2033 08/06/2034	चंद्र - चंद्र 08/06/2034 09/04/2035	चंद्र - मंगल 09/04/2035 08/11/2035	चंद्र - राहु 08/11/2035 09/05/2037	चंद्र - गुरु 09/05/2037 08/09/2038
शुक्र 08/08/2033 सूर्य 26/08/2033 चंद्र 26/09/2033 मंगल 17/10/2033 राहु 11/12/2033 गुरु 28/01/2034 शनि 27/03/2034 बुध 18/05/2034 केतु 08/06/2034	चंद्र 04/07/2034 मंगल 21/07/2034 राहु 05/09/2034 गुरु 16/10/2034 शनि 03/12/2034 बुध 15/01/2035 केतु 02/02/2035 शुक्र 24/03/2035 सूर्य 09/04/2035	मंगल 21/04/2035 राहु 23/05/2035 गुरु 20/06/2035 शनि 24/07/2035 बुध 23/08/2035 केतु 05/09/2035 शुक्र 10/10/2035 सूर्य 21/10/2035 चंद्र 08/11/2035	राहु 29/01/2036 गुरु 11/04/2036 शनि 07/07/2036 बुध 22/09/2036 केतु 24/10/2036 शुक्र 24/01/2037 सूर्य 20/02/2037 चंद्र 07/04/2037 मंगल 09/05/2037	गुरु 12/07/2037 शनि 28/09/2037 बुध 06/12/2037 केतु 03/01/2038 शुक्र 25/03/2038 सूर्य 18/04/2038 चंद्र 29/05/2038 मंगल 26/06/2038 राहु 08/09/2038

शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।


मूलांक	3
भाग्यांक	5
मित्र अंक	3, 5, 7, 9
शत्रु अंक	1, 4, 8
शुभ वर्ष	21,30,39,48,57
शुभ दिन	शुक्र, शनि, मंगल
शुभ ग्रह	शुक्र, शनि, मंगल
मित्र राशि	कर्क, सिंह
मित्र लग्न	वृष, तुला, धनु
अनुकूल देवता	शिव
शुभ रत्न	नीलम
शुभ उपरत्न	जमुनिया, बिलौर
भाग्य रत्न	हीरा
शुभ धातु	लौह
शुभ रंग	काला
शुभ दिशा	पश्चिम
शुभ समय	संध्या
दान पदार्थ	कस्तूरी, कृष्ण गौ, उपानह
दान अन्न	उड़द
दान द्रव्य	तेल

रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
हीरा	शुक्र	95%	स्वास्थ्य, सुख, भाग्योदय
पन्ना	बुध	75%	स्वास्थ्य, सन्तति सुख, दुर्घटना से बचाव
नीलम	शनि	73%	धन, कम खर्च, स्वास्थ्य
माणिक्य	सूर्य	59%	स्वास्थ्य, दम्पति
गोमेद	राहु	50%	दुर्घटना से बचाव, स्वास्थ्य
लहसुनिया	केतु	44%	धन हानि, व्यय
पुखराज	गुरु	38%	व्यय, हानि, धन हानि
मूंगा	मंगल	19%	दुर्घटना, पराक्रम हानि, व्यावसायिक हानि
मोती	चंद्र	6%	व्यावसायिक हानि, शत्रु व रोग



दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
बुध	08/06/2001	66%	0%	19%	88%	38%	100%	73%	50%	44%
केतु	08/06/2008	44%	0%	31%	75%	38%	100%	61%	26%	60%
शुक्र	08/06/2028	44%	0%	19%	81%	38%	100%	80%	57%	53%
सूर्य	08/06/2034	72%	19%	31%	75%	50%	83%	61%	26%	19%
चंद्र	08/06/2044	66%	31%	19%	81%	38%	95%	73%	26%	19%
मंगल	08/06/2051	66%	19%	44%	62%	50%	95%	73%	26%	53%
राहु	08/06/2069	44%	0%	0%	75%	38%	100%	80%	63%	19%
गुरु	08/06/2085	66%	19%	31%	62%	56%	83%	73%	50%	44%
शनि	09/06/2104	44%	0%	0%	81%	38%	100%	86%	57%	19%

साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

प्रथम चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	23/07/2002-08/01/2003 07/04/2003-06/09/2004 13/01/2005-26/05/2005
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	15/11/2011-16/05/2012 04/08/2012-02/11/2014 -----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	02/11/2014-26/01/2017 21/06/2017-26/10/2017 -----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	26/01/2017-21/06/2017 26/10/2017-24/01/2020 -----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	29/04/2022-12/07/2022 17/01/2023-29/03/2025 -----

द्वितीय चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	31/05/2032-13/07/2034 -----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	28/01/2041-06/02/2041 26/09/2041-11/12/2043 23/06/2044-30/08/2044
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	11/12/2043-23/06/2044 30/08/2044-08/12/2046 -----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	08/12/2046-06/03/2049 10/07/2049-04/12/2049 -----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	25/02/2052-14/05/2054 02/09/2054-05/02/2055 -----

तृतीय चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	11/07/2061-13/02/2062 07/03/2062-24/08/2063 06/02/2064-09/05/2064
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	04/11/2070-05/02/2073 31/03/2073-23/10/2073 -----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	05/02/2073-31/03/2073 23/10/2073-16/01/2076 11/07/2076-11/10/2076
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	16/01/2076-11/07/2076 11/10/2076-15/01/2079 -----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	12/04/2081-03/08/2081 07/01/2082-20/03/2084 -----

शनि का ढैया फल

ढैया के प्रकार

अष्टम स्थानस्थ ढैया
साढ़ेसाती प्रथम ढैया
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया
साढ़ेसाती तृतीय ढैया
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया

फल

शुभ
शुभ
सम
शुभ
शुभ

क्षेत्र

सन्तति
भाग्योदय
व्यावसायिक परेशानी
धनार्जन
स्वास्थ्य

साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

ॐ हों जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डेंट बनाकर धारण करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः ।

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।
स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए। जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

आपकी कुंडली में जन्म के समय मंगल की स्थिति अष्टम भाव में है अतः आप एक मांगलिक कन्या हैं। चूंकि आपकी कुंडली में यह दोष भंग नहीं हो रहा है अतः इसके प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य मध्यम रहेगा तथा पित जनित एवं रक्त विकार से आप यदा कदा कष्ट की अनुभूति करेंगी। साथ ही पति का स्वास्थ्य भी मध्यम रहेगा एवं उनके स्वभाव में तेजस्विता का भाव रहेगा। यदा कदा परस्पर संबंधों में मतभेद उत्पन्न होंगे लेकिन यह अल्प समय के लिए रहेगा तथा इसका कोई विशेष दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। साथ ही समय समय पर आपके सांसारिक महत्व के कार्यों को सम्पन्न करने में अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। इसके प्रभाव से आपके विवाह में न्यूनाधिक मात्रा में विलम्ब होगा तथा विवाह पूर्व किसी वार्ता में बाधा भी आ सकती है परन्तु अन्त में आपको सफलता प्राप्त होगी। सामान्यतया सुख पूर्वक आपका दाम्पत्य जीवन व्यतीत होगा।

आपकी कुंडली में मंगल अष्टम भाव में है अतः आपका स्वास्थ्य मध्यम रहेगा तथा यदा कदा गर्मी आदि से आपको किंचित परेशानी की अनुभूति हो सकती है। सांसारिक महत्व के कार्यों को पूर्ण करने में भी आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। एकादश भाव पर मंगल की दृष्टि के प्रभाव से आय स्रोतों में वृद्धि होगी तथा आवश्यक मात्रा में लाभार्जन भी होता रहेगा परन्तु इस में आपको अधिक परिश्रम एवं पराक्रम का प्रदर्शन करना पड़ेगा। द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि से पारिवारिक शान्ति मध्यम रहेगी तथा यदा कदा पारिवारिक जनों के मध्य मतभेद भी उत्पन्न होंगे। वाणी में ओजस्विता का भाव भी रहेगा परन्तु धनार्जन अच्छा रहेगा। तृतीय भाव पर मंगल की दृष्टि के प्रभाव से भाई बहनों का सुख एवं सहयोग मध्यम रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी जिससे आप अपने उन्नति मार्ग को प्रशस्त करने में समर्थ रहेंगी।

अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी एवं आनन्दमय बनाने के लिए आपको ऐसे

मांगलिक पुरुष से विवाह करना चाहिए जिससे आपका मांगलिक दोष भंग हो सके। इसके लिए पुरुष की कुंडली में मांगलिक स्थानों अर्थात प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भाव में शनि या राहु की स्थिति होनी चाहिए। इस प्रकार मांगलिक दोष भंग हो जाने पर आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी तथा ऐश्वर्य आदि से आप सुसम्पन्न होकर आनन्दपूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगी। साथ ही परस्पर संबंधों में भी मधुरता तथा सहयोग का भाव विद्यमान रहेगा।



कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। अतः इस योग से ग्रसित जातकों के लिए आवश्यक है कि वे इस काल सर्प योग का निदान करा लें। जिससे कि कुंडली के शुभ योगों के फल पूर्णयता मिलते रहें।

द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलाब्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलाब्ध नामक योग बनता है।

यदि लग्न कुंडली में सभी सातों ग्रह राहु से केतु के मध्य में हो लेकिन अंशानुसार कुछ ग्रह राहु केतु की धुरी से बाहर हों तो आंशिक काल सर्प योग कहलाता है। यदि कोई एक ग्रह राहु-केतु की धुरी से बाहर हो तो भी आंशिक काल सर्प योग बनता है।

यदि राहु से केतु तक सभी भावों में कोई न कोई ग्रह स्थित हो तो यह योग पूर्ण रूप से फलित होता है। यदि राहु-केतु के साथ सूर्य या चंद्र हो तो यह योग अधिक प्रभावशाली होता है। यदि राहु, सूर्य व चंद्र तीनों एक साथ हो तो ग्रहणकाल सर्प योग बनता है। इसका फल हजार गुना अधिक हो जाता है। ऐसे जातक को काल सर्प योग की शांति करवाना अति आवश्यक होता है।

काल सर्प योग का प्रभाव

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं।

काल सर्प योग के औपचारिक उपाय के द्वारा इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। जन्मपत्रिका के अनुसार जब-जब राहु एवं केतु की महादशा, अंतर्दशा आदि

आती है तब तब यह योग असर दिखाता है। गोचर में राहु व केतु का जन्मकालिक राहु-केतु व चंद्र पर भ्रमण भी इस योग को सक्रिय कर देता है। उस समय विशेष ध्यान देकर पूजा अर्चनादि श्रद्धा विश्वास के साथ करें, अवश्य लाभ होगा। कालसर्प योग यंत्र के सम्मुख 43 दिन तक सरसों के तेल का दीया जलाने से भी इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है।

जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मकुण्डली में कर्कोटक नामक कालसर्प योग केवल अनुदित रूप में विद्यमान है। अनुदित योग पूर्णरूप से कालसर्प योग की परिभाषा में नहीं आता, लेकिन फिर भी इसका कुछ फल अवश्य मिलता है। फलस्वरूप जातक को भाग्योदय होने में आंशिक रूप से व्यवधान उपस्थित हो जाता है। नौकरी में थोड़ा बहुत रुकावट आती है या कभी पदावनति होने का भय होता है। प्रायः जातक को पैतृक सम्पत्ति का मनोवांछित लाभ नहीं मिलता है। व्यापारादि कार्यों में थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ता है और विशेष परिश्रम करने के बावजूद भी उसका सही फल प्राप्त नहीं होता है। कामों में स्थिरता प्रायः नहीं आ पाती।

इस योग के प्रभाव से जातक अपने मित्रों के द्वारा कभी थोड़ा बहुत छले जाते हैं। जिस कारण जातक को नुकसान उठाना पड़ता है। कभी जातक के शरीर में रोग व्याधि ग्रसित कर लेती है तथा आंशिक रूप में मानसिक परेशानी घेरे रहती है। जातक को कुटुम्ब से अपयश मिलता है एवं आत्मीय परिजनों से सम्मान नहीं मिलता है।

इस योग के कारण जातक को अपनी वाणी पर नियन्त्रण नहीं रहता एवं वाणी कभी-कभी दूषित हो जाती है। परिणामस्वरूप जातक का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। बात-बात पर लड़ाई-झगड़े करने को भी तैयार हो जाता है और जातक को आंशिक रूप से आर्थिक नुकसान होता है तथा उधार में दिया हुआ पैसा प्रायः डूब ही जाता है। जातक को कभी शस्त्राघात का भय होता है। जातक के अनेक शत्रु होते हैं। वे षड्यन्त्र रचते रहते हैं, परन्तु अपने षड्यन्त्र में वे कभी सफल नहीं होते। जातक को अकाल मृत्यु का भय बना रहता है।


यदि आप कभी उपरोक्त परेशानी महसूस करते हैं तो निम्नलिखित उपाय करें, अवश्य लाभ मिलेगा।

1. काल सर्प दोष निवारण यंत्र घर में स्थापित करके, इसका नियमित पूजन करें।
2. बहते पानी में नारियल के फल को तीन बार शुभ मुहूर्त में प्रवाहित करें।
3. बहते पानी में कोयला को शुभ मुहूर्त में तीन बार प्रवाहित करें।
4. हरिजन को मसूर की दाल तथा द्रव्य शुभ मुहूर्त में तीन बार दान करें।
5. हनुमान चलीसा का 108 बार पाठ करें।
6. शयन कक्ष में लाल रंग के पर्दे, चादर तथा तकियों का उपयोग करें।
7. कुल देवता की पूजा करें।
8. धूम्रवस्त्र, तिल, कम्बल एवं सप्तधान्य शुभ मुहूर्त में रात्रि को दान करें।
9. केतु की उपासना उसकी महादशा में अवश्य करें।
10. देवदारु, सरसों तथा लोहवान को उबाल कर एक बार स्नान करें।
11. सवा महीने जौ के दाने पक्षियों को खिलाएँ।

12. नीला रुमाल, नीला घड़ी का पट्टा, नीला पैन, लोहे की अंगूठी धारण करें।

विशेष

ध्यान रखें कालसर्पयोग का पूजन केवल श्रीखण्ड चन्दन से करें। कुंकुम, सिन्दूर, रोली आदि का प्रयोग न करें। तिरुपति बालाजी के पास कालाहस्ती शिव मंदिर में जाकर कालसर्प योग की शांति का उपाय विधि-विधान से एक बार करें अथवा 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाकर पूजा करें जैसे - कि सौराष्ट्र गुजरात में सोमनाथ मंदिर, महाराष्ट्र के नासिक में त्रयंबकेश्वर मंदिर, उज्जैन, भीमाशंकर, नागेश्वर, रामेश्वर, वगैरे।



पितृदोष विचार

पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरान्त पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं।

पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराउंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।

नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ॥

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें ।

पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें ।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें ।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें । मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें ।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं ।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें ।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें ।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं ।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें । यह स्थान पितृों का स्थान माना जाता है ।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं ।

आपकी कुण्डली में पितृदोष

- लग्नेश शनि व राहु दोनों से प्रभावित है ।

आपकी कुण्डली में शनि के कारण पितृदोष है ।

आपकी कुण्डली में शनि पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी पुरुष सदस्य द्वारा दलित पर किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है । इस दोष के निवारणार्थ भगवान रुद्र की पूजा करें । पीपल को जल चढ़ायें व पूजा करें । शम्मी की समिधा से हवन करें । बकरी व शनि प्रीतकारी वस्तुओं का दान करें । गरीब या जरूरतमंदों की सहायता के रूप में दान दें तथा कौए को खाने का पहला ग्रास खिलायें ।

आपकी कुण्डली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है । संभव है कि किसी शुभकार्य के कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को प्राप्त हो गए हों ।

नोट :

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह स्रयंबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांढ़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।



ग्रह फल

सूर्य

लग्न (प्रथम) में सूर्य हो तो जातक स्वाभिमानी, चंचल, कृशदेही, प्रवासी उन्नत नासिका, विशाल ललाटवाला, पित्त-वातरोगी, शूरवीर, अस्थिर सम्पत्तिवाला एवं अल्पकेशी होता है।

कुम्भ राशि में रवि हो तो जातक स्थिरचित्त, स्वार्थी, कार्यदक्ष, कोधी, दुःखी, निर्धन, अच्छा ज्योतिषी एवं मध्य अवस्था के पश्चात् सन्यास लेने वाला होता है।

आपके जन्म समय में सूर्य की स्थिति प्रथम भाव में स्थित है। अतः आपके पिता का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा एवं उनकी आयु भी दीर्घ होगी। आपके प्रति उनके हृदय में वात्सल्य भाव रहेगा तथा जीवन में समस्त शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में वे आपको अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। साथ ही आप जीवन में पिता के द्वारा यश अर्जित करने में भी सफल रहेंगी। इसके अतिरिक्त पिता के द्वारा आपके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान भी रखा जाएगा।

आप भी उनके प्रति हार्दिक सम्मान तथा आदर प्रदान करेंगी तथा उनकी सेवा एवं आज्ञा पालन करने के लिए सर्वदा तत्पर रहेंगी। आपके परस्पर संबंध मधुर रहेंगे तथापि यदा कदा अल्प मात्रा में सैद्धान्तिक मतभेद विद्यमान रहेंगे जिससे यदा कदा विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। साथ ही आप जीवन में उन्हें अपना पूर्ण सहयोग तथा सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर रहेंगी।

चन्द्र

दसवें भाव में चन्द्रमा हो तो जातक कार्यकुशल, व्यापारी, कार्यपरायण, सुखी, यशस्वी, विद्वान्, कुल-दीपक, दयालु, निर्बल बुद्धि, सन्तोषी लोकहितैषी, मानी, प्रसन्नचित्त एवं दीर्घायु होता है।

वृश्चिक राशि में चन्द्रमा हो तो जातक अपने माता-पिता, भाइयों आदि से अलग रहने वाला, नास्तिक, लोभी, बन्धुहीन, परस्त्रीरत, झगड़ालू, स्पष्ट वक्ता, बुरे विचार रखने वाले, दुःखी, हठी, अनैतिक विचारों वाला एवं धनी होता है।

आपके जन्म समय में चन्द्रमा की स्थिति दशम भाव में है। अतः माता का आप पूर्ण स्नेह प्राप्त करेंगी। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा एवं आयु भी लम्बी होगी। धन सम्पत्ति तथा अन्य आवश्यक सुख संसाधनों से वे युक्त रहेंगी तथा जीवन के आवश्यक कार्यों में आपको अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी। साथ ही आप आजीविका, व्यापार तथा यश प्राप्ति भी उन्हीं के सहयोग से अर्जित करने में सफल होंगी।

आप उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव रखेंगी एवं समयानुसार उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए भी तत्पर रहेंगी। आपके आपसी संबंध अच्छे रहेंगे तथा यदा कदा आपस में सैद्धान्तिक मतभेद होंगे किन्तु उससे आपके संबंधों में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप भी

उनकी सुख सुविधा का पूर्ण ध्यान रखेंगी तथा हर सम्भव उनका सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगी। इस प्रकार आप एक दूसरों के लिए सामान्य रूप से शुभ ही समझी जाएंगी।

मंगल

आठवेंभाव में मंगल हो तो जातक व्याधिस्त, व्यसनी, मद्यपायी, कठोरभाषी, उन्मत्त, नेत्ररोगी, शस्त्रचोर, संकोची, अग्निभीरु, धनचिन्ता युक्त एवं रक्तविकारयुक्त होता है।

कन्या राशि में मंगल हो तो जातक सुखी, शिल्पज्ञ, पापभीरु, लोकमान्य एवं व्यवहार कुशल होता है।

आपके जन्म समय में मंगल अष्टम भाव में स्थित है अतः आपके भाई बहिनों का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा एवं यदा कदा शारीरिक रूप से वे अस्वस्थ रहेंगे। आप उनकी प्रिय रहेंगी तथा आपके प्रति उनके मन में पूर्ण स्नेह एवं सम्मान का भाव विद्यमान रहेगा। जीवन में आप समस्त शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में उन से आर्थिक तथा अन्य रूप से सहयोग अर्जित करती रहेंगी। धन धान्य का उनके पास अभाव नहीं रहेगा अतः यदा कदा विशिष्ट धन की प्राप्ति आप उनसे कर सकेंगी।

आप भी उनके प्रति पूर्ण स्नेह भाव रखेंगी एवं अवसरानुकूल सुख दुःख में उनको अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर रहेंगी। आपके आपसी संबंध भी ठीक ही रहेंगे परन्तु यदा कदा सैद्धान्तिक मतभेदों के कारण इनमें तनाव तथा कटुता की स्थिति भी उत्पन्न होगी लेकिन कुछ समय बाद स्वतः ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ ही आप सुख दुःख में भी उनका सहयोग करने के लिए करने के लिए उद्यत रहेंगी।

बुध

लग्न (प्रथम) में बुध हो तो जातक आस्तिक, गणितज्ञ, दीर्घायु, उदार-विनोदी, वैद्य, विद्वान, स्त्रीप्रिय, मितव्ययी एवं मधुरभाषी होता है।

कुम्भ राशि में बुध हो तो जातक कुटुम्बहीन, दुःखी, अल्पधनी, झगड़ालू, प्रसिद्ध निर्बल स्वास्थ्य एवं प्रगति करने वाला होता है।

गुरु

द्वादश भाव में गुरु हो तो जातक मितभाषी, योगाभ्यासी, परोपकारी, उदार, आलसी, सुखी, मितव्ययी, शास्त्रज्ञ, सम्पादक, लोभी, यात्री एवं दुष्ट चित्तवाला होता है।

मकर राशि में गुरु हो तो जातक प्रवासी, द्रव्यहीन, व्यर्थपरिश्रमी, चंचलचित्त, धूर्त, असभ्य आचरण, दुःखी एवं ईर्ष्यालु होता है।

शुक्र

लग्न (प्रथम) में शुक्र हो तो जातक सुन्दरदेही, दीर्घायु, राजप्रिय, कामी, उच्चसरकारी पद पर आसीन, विलासी, भोगी, विद्वान्, प्रवासी, मधुरभाषी, प्रसिद्ध सुखी एवं ऐश्वर्यवान् होता है।

कुम्भ राशि में शुक्र हो तो जातक शान्तिप्रिय, दूसरों को सहायता करने वाला, सच्चरित्र, सुन्दर, लोकप्रिय, चिन्ताशील एवं रोग से सन्तप्त होता है।

शनि

द्वितीय भाव में शनि हो तो जातक कटुभाषी, साधुद्वेषी, मुखरोगी, और कुम्भ या तुला का शनि हो तो धनी, लाभवान् एवं कुटुम्ब तथा भातृवियोगी होता है।

मीन राशि में शनि हो तो जातक अविचारी, शिल्पकार हतोत्साही, धनी, प्रसिद्ध, सुखी एवं दूसरों की सहायता करने वाला होता है।

राहु

अष्टम भाव में राहु हो तो जातक क्रोधी, व्यर्थभाषी, मूर्ख, उदररोगी, कामी, पुष्टदेही एवं गुप्तरोगी होता है।

कन्या राशि में राहु हो तो जातक लोकप्रिय, मधुरभाषी, कविलेखक, गवैया एवं धनी होता है।

केतु

द्वितीय भाव में केतु हो तो जातक अस्वस्था, कटुवचन बोलने वाला, मुंह के रोग, राजभीरु एवं विद्रोही होता है।

मीन राशि में केतु हो तो जातक परिश्रमी, धार्मिक प्रवृत्तिवाला, कर्णरोगी, प्रवासी, चंचल और कार्यपरायण होता है।

दशा विश्लेषण

महादशा :- शुक्र
(08/06/2008 - 08/06/2028)

आपकी कुण्डली में शुक्र की महादशा को 08/06/2008 आरम्भ होकर 08/06/2028 को समाप्त होगी। इसकी अवधि 20 वर्ष है।

आपकी जन्म कुण्डली में शुक्र प्रथम भाव में स्थित है। यह एक शुभ ग्रह है जिसकी सामान्यतया दो राशियाँ हैं- वृष और तुला। इसकी मूल त्रिकोण राशि तुला है। यह मीन राशि में उच्च का तथा कन्या राशि में निम्न का होता है। यह आनन्द, प्रेम-संबंध, स्वाद, फैशन डिजाइनिंग तथा जीवन के आनन्द का द्योतक है। यह आपकी कुण्डली के प्रथम भाव में स्थित होकर सप्तम भाव को देख रहा है और इस पर शुभ प्रभाव डाल रहा है। प्रथम भाव, जिसमें यह स्थित है, शारीरिक गठन, रूप, आकार, स्वास्थ्य, शक्ति और ऊर्जा, व्यक्तित्व, समृद्धि, सद्गुण और जीवन के प्रति सकारात्मक सोच का द्योतक है।

स्वास्थ्य :

महादशेश शुक्र प्रथम भाव में स्थित है। यह शारीरिक स्तर, स्वास्थ्य, शक्ति और ऊर्जा का द्योतक है। इसकी दशा के दौरान आप खुशहाल और स्वस्थ जवीन व्यतीत करेंगे। कोई बड़ी घटना या दुर्घटना आपको परेशान नहीं करेगी।

अर्थ संपत्ति :

शुक्र लग्न में स्थित है जो जीवन के अच्छे पहलुओं का द्योतक है। आप भद्र,, प्रसन्नचित्त तथा भावुक होंगे। शुक्र लग्न से आपकी कुण्डली के सप्तम भाव को देख रहा है जिसके फलस्वरूप आपका भविष्य सामान्यतया अच्छा रहेगा तथा आप इस दशा काल में अपनी चल तथा अचल संपत्ति में बिना किसी कठिनाई के वृद्धि कर पाएँगे।

व्यवसाय :


आप कला पारखी तथा मनोरंजनप्रिय होंगे। गीत, संगीत तथा नाटक में आपकी अभिरुचि होगी और आप इत्र तथा फूल इत्यादि के शौकीन होंगे। व्यवसाय के लिए कला का चयन कर सकते हैं।

पारिवारिक जीवन :

शुक्र की लग्न में स्थित होकर सप्तम भाव, जो जीवन साथी का भाव है, पर दृष्टि आपका विवाह सुनिश्चित करती है। विपरीत लिंग के लोग आपके आकर्षक तथा करिश्माई व्यक्तित्व के कारण आपकी तरफ खिंचेंगे। आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही आनन्ददायक और उत्साहपूर्ण होगा और आपके बच्चे बहुत सुन्दर होंगे।

शिक्षा/प्रशिक्षण :

यह दशा काल शिक्षा के लिए अनुकूल है।



एक्स-35, ओखला फेज-2, नई दिल्ली-110020 फोन:- 011-40541000, 40541020
Web: www.futurepointindia.com, e-mail: mail@futurepointindia.com

महादशा :- सूर्य
(08/06/2028 - 08/06/2034)

सूर्य की महादशा 08/06/2028 को आरंभ और 08/06/2034 को समाप्त होगी। आपकी जन्मकुण्डली में सूर्य लग्न में स्थित है। सूर्य स्वास्थ्य, पिता, आत्मा, राजकीय सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है जबकि प्रथम भाव चरित्र, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और सुख का द्योतक है। अतः इस दशा में आपका स्वास्थ्य, सम्पत्ति, शक्ति तथा प्रभुत्व उत्तम होंगे।

स्वास्थ्य :

आपका स्वास्थ्य इस दशा में उत्तम रहेगा। किन्तु, शरीर में अत्यधिक ताप होने के कारण आप खसरा आदि संक्रामक रोगों के शिकार हो सकते हैं। अन्यथा आप हृष्टपुष्ट और शक्तिशाली रहेंगे।

सम्पत्ति :

इस अवधि में आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम होगी और आप धनी तथा समृद्धिशाली होंगे। आप अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करेंगे और अपने ही प्रयासों से धनोपार्जन करेंगे। आप धन तथा जीवन के सारे सुखों से सम्पन्न होंगे। आपको आपके पिता से लाभ हो सकता है।

व्यवसाय :

आप इस दशा में यश और ख्याति प्राप्त करेंगे। आप अपने कार्यों में सफल होंगे और डच्चाधिकारियों का अनुग्रह प्राप्त करेंगे। नौकरीपेशा लोगों के कार्य में परिवर्तन हो सकता है। आपको कुछ अप्रत्याशित लाभ हो सकता है या आपका स्थानान्तरण अथवा कार्य-स्थान में परिवर्तन हो सकता है। आप प्रशासनिक कार्यों, व्यापार अथवा सरकारी कार्यों में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपमें प्रशासकीय योग्यता तथा अथक परिश्रम की क्षमता है। आप चिकित्सा तथा लेखा, कोषागार आदि से संबन्धित कार्यों का सुन्दर संचालन कर सकते हैं। आप बड़ी संस्थाओं, निगमों आदि के प्रबंधक, निदेशक, विक्रय-प्रबंधक आदि के लिए अत्यन्त योग्य हैं। सोने, तांबे तथा रत्नों का व्यवसाय आपके लिये उपयुक्त है।

परिवार (कुटुम्ब) :

आपको आपकी सन्तानों से सुख मिलेगा। आपके परिवार में किसी शिशु का जन्म हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव हो सकते हैं जिन पर धैर्य तथा सहिष्णुता से नियंत्रण किया जा सकता है। आपकी माता प्रभावशाली होंगी और उन्हें सट्टे तथा निवेश से लाभ का सुअवसर मिलेगा। आपके छोटे भाई-बहनों को आर्थिक लाभ होगा जबकि बड़ों को कठिन परिश्रम करना होगा। किन्तु उन्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी तथा वे संवादपटुता आदि से लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे।

शिक्षा :

आपकी योग में रुचि रहेगी और आप धार्मिक प्रवचन करेंगे या उनकी व्यवस्था करेंगे। आपकी राजनीति में रुचि हो सकती है। आप में विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक कार्यों

के आयोजन की अद्भुत क्षमता है। आपके उग्र स्वभाव के कारण आपकी अन्यों के साथ शत्रुता हो सकती है, हालाँकि आप दयालु-हृदय हैं।



अंतर्दशा :- सूर्य - सूर्य
(08/06/2028 - 25/09/2028)

आपके लिए सूर्य की महादशा 08/06/2028 को प्रारंभ हो रही है। इस महादशा में पहली अंतर्दशा सूर्य की होगी जिसकी अवधि 3 मास 18 दिन होकर 25/09/2028 को समाप्त होगी। अंतर्दशा का स्वामी सूर्य पिता, अधिकार, शक्ति, नाम, प्रसिद्धि, ऊर्जा और आत्मा का कारक है।

इस अवधि में आप प्रभावशाली, सक्रिय और उद्यमी होंगे। आप महत्वाकांक्षी हैं और सत्ता से अनुराग रखते हैं। इस अंतर्दशा में आप अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल होंगे और नाम भी खूब कमाएंगे। नेतृत्व शक्ति के कारण आपका सम्मान होगा। न्यायप्रिय होने के कारण आप प्रशंसा प्राप्त करने योग्य कार्य करेंगे जिनसे आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। प्रसन्नचित रहने और आशावादी दृष्टिकोण के कारण आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी।

पिता के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। उनकी जायदाद में वृद्धि होगी। माता की लोकप्रियता बढ़ेगी और उन्हें सब कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आपके भाई-बहनों के धन में वृद्धि होगी। आपकी संतान शिक्षा में यश प्राप्त करेगी। सूर्य की सप्तम भाव पर दृष्टि के कारण दांपत्य जीवन में कुछ मतभेद संभव हैं मगर इनका समाधान धैर्य और सहनशीलता द्वारा हो सकता है। भागीदारों के साथ भी कुछ मतभेद पनप सकते हैं। राजनीति में भाग लेने वालों के लिए समय उत्तम है।

इस अंतर्दशा में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पित्तविकार, सिरदर्द और कार्यक्षमता में कमी आदि से कष्ट संभव है। इन सब से बचने के लिए गायत्री मंत्र का जाप लाभदायक रहेगा।

अंतर्दशा :- सूर्य - चन्द्र
(25/09/2028 - 27/03/2029)

आपकी सूर्य की महादशा 08/06/2028 को प्रारंभ हुई थी। इसमें दूसरी अंतर्दशा चंद्रमा की होगी जिसकी अवधि 6 मास है और यह 27/03/2029 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी चंद्र मष्तिष्क, घर, माता और सौंदर्य का कारक है।

इस अवधि में सलाहकारों को प्रसिद्धि मिलेगी। सेवारत जातकों को प्रशंसा और प्रोन्नति प्राप्त होगी। व्यापारीगणों को धन की प्राप्ति होगी। उनकी संकल्पशक्ति दृढ़ होगी।

क्रय, उपहार या विरासत द्वारा जायदाद प्राप्त हो सकती है। माता के साथ संबंध उत्तम रहेंगे। पिता की आय बढ़ सकती है। विरासत की जायदाद में लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं। मुकदमेबाजी खत्म होगी। भाई-बहनों से संबंधों में अचानक बदलाव आ सकता है। मामापक्ष के लोगों का भाग्य चमकेगा। विद्यार्थीगण विज्ञान और समाज विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे।

खेलकूद में आपकी रुचि रहेगी।

स्नायविक उत्तेजना और अत्यधिक श्रम से बचाव करें। घुटनों की देखभाल करें। शुभत्व में वृद्धि के लिए चंद्र मंत्र का जाप करें।

ॐ सौं सोमाय नमः

अंतर्दशा :- सूर्य - मंगल
(27/03/2029 - 02/08/2029)

आपकी सूर्य की महादशा 08/06/2028 को प्रारंभ हो रही है। इसमें तृतीय अंतर्दशा मंगल की है जिसकी अवधि 4 मास 6 दिन है। यह अंतर्दशा 02/08/2029 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी मंगल साहस, ऊर्जा और भाइयों का कारक है।

इस अवधि में आप में उत्तम कार्यशक्ति और ऊर्जा मौजूद रहेंगी। खूब धन कमाएंगे। विरासत में जायदाद मिल सकती है या सेवानिवृत्ति/बोनस आदि से धन प्राप्त हो सकता है। जीवनसाथी के परिवार या व्यापार में साझेदार के माध्यम से धन प्राप्त हो सकता है। स्पर्धा परीक्षा में सफलता मिल सकती है। सेवारत जातकों को कठिन परिश्रम करना होगा। परामर्शदाता धन कमाएंगे। व्यवसायी नये अनुबंध प्राप्त करने में सफल रहेंगे।

बड़े भाई-बहनों को धनलाभ होगा। छोटे भाई-बहन प्रतिस्पर्धा में सफल हो सकते हैं। पिता के खर्च बढ़ेंगे। उन्हें छोटी-मोटी चोटों से सावधान रहना चाहिए। माता को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आपके पुत्र-पुत्रियों की प्रोन्नति होकर उच्च पद की प्राप्ति होगी। तकनीकी विषय उनके लिए उत्तम रहेंगे। मामापक्ष के लोग जायदाद या वाहन की खरीद/बिक्री कर सकते हैं या कमीशन कार्य कर सकते हैं। शत्रु आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं मगर कामयाब नहीं होंगे।

आपको नेत्ररोग, गठिया और मूत्रतंत्र की व्याधियों से सावधान रहना चाहिए। मामूली कष्टों से बचने के लिए मंगल के मंत्र का जाप करें, मंगलवार को उपवास करें और लाल वस्तुओं का दान करें।

ॐ अं अंगारकाय नमः

अंतर्दशा :- सूर्य - राहु
(02/08/2029 - 26/06/2030)

आपके लिए सूर्य की महादशा 08/06/2028 को प्रारंभ हुई थी। इसमें चतुर्थ अंतर्दशा राहु की होगी। यह 02/08/2029 को प्रारंभ होकर 26/06/2030 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी राहु भौतिक सुख, दादा और तीर्थयात्रा का कारक है।

इस अवधि में अप्रत्याशित, अचानक परिवर्तन हो सकते हैं। भाग्य मध्यम रहेगा। जीवनसाथी या साझेदार के माध्यम से लाभ होगा। रहस्यवाद और प्राच्यविद्या में रुचि होगी। परिवार से कुछ दिनों के लिए अलगाव हो सकता है। घर में शांति बनाए रखें। मन को तसल्ली देने के लिए मानसिक और शारीरिक तौर पर सक्रिय रहें।

आपके पिता के भारी खर्चे हो सकते हैं। माता की आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी। भाई-बहनों को आर्थिक लाभ होगा, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, विरोधियों पर विजय होगी। आपकी संतान को शिक्षा में परिश्रम करना चाहिए। अगर वे नौकरी में हैं तो अचल संपत्ति प्राप्त करेंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम करना होगा। परामर्शदाताओं के लाभ में वृद्धि होगी। व्यापारीगण नये अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

छोटी व्याधि कभी-कभी बड़ा रूप धारण कर लेती है, अतः स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अस्थियों और मस्तिष्क के रोगों से बचाव करें। कष्ट से बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की पूजा करें।

अंतर्दशा :- सूर्य - गुरु (26/06/2030 - 15/04/2031)

आपके लिए सूर्य की महादशा 08/06/2028 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा 9 मास 18 दिन की रहेगी। यह 26/06/2030 को प्रारंभ होकर 15/04/2031 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी बृहस्पति धन, संतान और धर्म का कारक है।

इस अवधि में आपकी कई यात्राएं हो सकती हैं। धन का संचय हो सकता है मगर शुभ कार्यों पर खर्चा भी होगा। धर्म-अध्यात्म में रुचि होगी। बहुत से सराहनीय कार्य करेंगे। सफलता बाधाओं के बाद ही मिलेगी। शत्रुओं पर विजय होगी; स्वास्थ्य उत्तम होगा। पारिवारिक सुख मिलेगा, माता-पिता से तसल्ली मिलेगी। पिता से कुछ संपत्ति मिल सकती है। वाहन प्राप्त हो सकता है। जायदाद से किराया और आमदनी बढ़ेंगे। नयी जायदाद क्रय कर सकते हैं। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। दानी बन सकते हैं।

आपके जीवनसाथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। उनकी विरोधियों पर विजय होगी, कार्य में अच्छे अवसर मिलेंगे, धन का लाभ होगा। आपके पिता की अचल संपत्ति में वृद्धि हो सकती है; उन्हें अप्रत्याशित धन प्राप्त हो सकता है। माता को लाभ होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, यात्राएं होंगी। भाई-बहनों के धन में वृद्धि होगी। आपकी संतान शोधकार्य में सफल हो सकती है। उन्हें स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कभी-कभी निराश हो सकते हैं।

अगर आप सेवारत हैं तो धन कमाएंगे। परामर्शदाता स्वयं को संगठित करेंगे ; उनकी आय उत्तम रहेगी। व्यापारियों को लाभ अधिक, हानि कम रहेंगे।

नेत्र, कान, जिगर के रोगों से बचें। शुभत्व में वृद्धि हेतु विष्णुजी की पूजा करें।